

# पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें (MAIN ITEMS OF FAMILY BUDGET)

हता के अनुसार पारिवारिक बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा निम्न प्रकार



तथा सम्बद्ध सामग्री (Food and related items)— भोजन का प्रथम स्थान प्रदान किया जाता है। इस तथ्य को स्मरणीय रखते हुए भोजन के बजट के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक मद के रूप में

2. यातायात (Transportation) — नियमित रूप से प्रत्येक परिवार के कुछ सदस्यों को कहीं-न-कहीं जाना ही पड़ता है। इस प्रकार यातायात के साधन आगमन तथा निगमन के लिए आवश्यक होते हैं। यदि वाहन स्वयं का होता है तो वाहन हेतु पेट्रोल तथा मरम्मत पर व्यय करना होता है एवं यदि वाहन स्वयं का नहीं होता तो रिक्शा किराया, बस या ट्रेन आदि के टिकट पर व्यय करना होता है। इस मद की भी बजट के अन्तर्गत अवहेलना नहीं की जा सकती।

3. वस्त्र (Clothing) — वस्त्र पारिवारिक बजट की द्वितीय मद होती है। विशिष्ट सूझ-बूझ द्वारा वस्त्रों पर होने वाले व्यय को निर्धारित किया जाना चाहिए। वास्तव में वस्त्रों पर जो भी व्यय किया जाता है उसकी कोई भी उत्तम सीमा नहीं होती है। पारिवारिक आय तथा परिस्थितियों को स्मरणीय रखकर ही वस्त्रों की संख्या तथा उनकी किस्म को निर्धारित करना चाहिए। वास्तव में समुचित वस्त्र पारिवारिक रहन-सहन के स्तर के निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं परन्तु फैशन के कारण पारिवारिक बजट की अन्य किसी मद में कटौती कर वस्त्रों पर अत्यधिक व्यय करना उचित नहीं समझा जाता है।

4. मकान एवं आवास से सम्बन्धित आवश्यकताएँ (House and related Needs) — मकान एवं आवास से सम्बद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति का भी बजट के अन्तर्गत प्रावधान करना चाहिए। यदि मकान स्वयं का न होकर किराये का है तो बजट में मासिक किराये का भी समावेश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मद में बिजली, पानी के बिल आदि का भी समावेश करना चाहिए। यदि स्वयं का मकान निर्मित करने या क्रय करने की योजना हो तो 'आवास मद' में उस प्रयोजन हेतु भी कुछ बचत करनी चाहिए।

5. शिक्षा एवं स्वास्थ्य (Education and Health) — बच्चों की शिक्षा एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य से सम्बन्धित आवश्यकताओं पर होने वाला व्यय भी पारिवारिक बजट की एक महत्वपूर्ण मद होती है। विशिष्ट रूप से पारिवारिक बजट की इस मद को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक परिवार को अपनी इस मद का निर्धारण स्वयं की आर्थिक, पारिवारिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।



6. गृह के अन्य आवश्यक व्यय (Other Necessary Expenses of Home) — उपर्युक्त वर्णित मुख्य मदों के अतिरिक्त पारिवारिक बजट की एक अन्य आवश्यक मद भी होती है। गृह पर होने वाले कुछ आवश्यक व्ययों को इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, गृह पर प्रयोग होने वाले बिजली के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यय भी बजट के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं जो अपनी

व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार के मुखिया या अन्य सदस्य करते हैं। उदाहरणार्थ—इसके अलावा क्लब, रेस्तरां आदि पर होने वाले व्ययों के साथ ही मनोरंजन पर होने वाले व्ययों को भी सम्मिलित किया जाय। चाय-कॉफी एवं पान-सिगरेट आदि पर भी कुछ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त धन व्यय कर दिया जाता है। बचत निर्माण करते समय इस व्यय को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

8. बचत (Saving)—यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 'बचत का बजट' सर्वोत्तम बजट है। अतः बजट के अन्तर्गत बचत की भी एक मद होनी चाहिए। इस हेतु कोई भी निश्चित नियम नहीं है कि कितनी होनी चाहिए परन्तु अनिवार्य रूप से बजट के अन्तर्गत बचत का प्रावधान किया जाना चाहिए। निःसंदेह बचत हेतु सूझबूझ, मितव्ययिता जैसे कुछ प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। यह सत्य है कि बचत वह प्रयास होता है भविष्य के सुखमय तथा समृद्ध होने की गारण्टी प्रदान करता है।

**बचत के प्रकार**